

Bachelor's Preparatory Programme (B.P.P.)

(For Non 10+2)

04816

Term-End Examination

June, 2018

PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN COMMERCE

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम (बी.पी.पी.)

(बिना 10+2)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

General Instructions :

Preparatory Course in Commerce (PCO-01)

Questions 1 – 50

- (i) *This is an objective type question paper. Options for the correct answer must be marked only in OMR sheet.*
- (ii) *All questions are **compulsory**.*
- (iii) *The question paper consists of **50** questions, each of which carries **one** mark.*
- (iv) *Each question has four alternatives, one of which is correct. Write the Sl. No. of your correct alternative/answer below the corresponding question number in the OMR sheet and then mark the rectangle for the same number in that column. If you find that none of the given alternatives is correct then write 0 and mark in column 0.*
- (v) *Do not waste time in reading the whole question paper. Go on solving questions one by one. You may come back to the left out questions, if you have time at the end.*

- (i) यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र है। प्रश्नों के सही विकल्प केवल OMR शीट में लिखिए।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में 50 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है। ओ.एम.आर. शीट में निर्देशानुसार सही विकल्प। उत्तर का क्रमांक संगत प्रश्न संख्या के नीचे लिखें और फिर उसी क्रमांक के आयत पर उसी कॉलम में चिह्न लगाएँ। अगर आप पाएँ कि कोई भी विकल्प सही नहीं है तो 0 लिखें और कॉलम 0 में चिह्न लगाएँ।
- (v) पूरे प्रश्न-पत्र को पढ़ने में समय बर्बाद मत कीजिए। एक के बाद एक प्रश्न को करते जाइए। यदि बाद में समय रहे, तो बचे हुए प्रश्नों को दुबारा देखा जा सकता है।

1. The concept according to which the business is treated as a unit apart from its owner is called
 - (1) Matching concept
 - (2) Cost concept
 - (3) Business entity concept
 - (4) Going concern concept
2. Loan account is a
 - (1) Nominal A/c
 - (2) Personal A/c
 - (3) Real A/c
 - (4) Real A/c as well as Nominal A/c
3. Debit balance of Suspense A/c will be shown on
 - (1) The debit side of Profit and Loss A/c
 - (2) The credit side of Profit and Loss A/c
 - (3) The debit side of Trading A/c
 - (4) The assets side of the Balance Sheet
4. ₹ 5,000 paid as wages for erecting a machine should be debited to
 - (1) Machine A/c
 - (2) Wages A/c
 - (3) Cash A/c
 - (4) Repairs A/c
5. Business includes
 - (1) Industry and commerce
 - (2) Industry and aids to trade
 - (3) Trade and aids to trade
 - (4) Trade only
6. A person who owes some amount to a business is called a/an
 - (1) Debtor
 - (2) Creditor
 - (3) Owner
 - (4) Lender

1. वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसाय को इसके मालिक से एक अलग इकाई माना जाता है, कहलाती है
 - (1) मिलान की संकल्पना
 - (2) लागत की संकल्पना
 - (3) व्यावसायिक एका की संकल्पना
 - (4) चालू व्यवसाय की संकल्पना
2. ऋण खाता है एक
 - (1) आय-व्यय खाता
 - (2) व्यक्तिगत खाता
 - (3) वास्तविक खाता
 - (4) वास्तविक खाता एवं आय-व्यय खाता
3. निलंबित खाते (Suspense A/c) के डेबिट शेष को दिखाया जाएगा
 - (1) लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में
 - (2) लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में
 - (3) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में
 - (4) तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के परिसंपत्तियाँ पक्ष में
4. एक मशीन की स्थापना के लिए मज़दूरी के दिए गए ₹ 5,000 की राशि डेबिट की जानी चाहिए
 - (1) मशीन खाते को
 - (2) मज़दूरी खाते को
 - (3) रोकड़ खाते को
 - (4) मरम्मत खाते को
5. व्यवसाय में शामिल हैं
 - (1) उद्योग एवं वाणिज्य
 - (2) उद्योग तथा व्यापार में सहायक कार्यकलाप
 - (3) व्यापार तथा व्यापार में सहायक कार्यकलाप
 - (4) केवल व्यापार
6. वह व्यक्ति जिसने व्यवसाय को अभी कुछ राशि देनी है, कहलाता है

(1) देनदार	(2) लेनदार
(3) स्वामी (Owner)	(4) ऋणदाता

7. What will be the effect of salaries paid on accounting equation ?
- (1) Cash will decrease
 - (2) Cash will increase
 - (3) Capital will decrease and cash will also decrease
 - (4) Only capital will decrease
8. Which of the following is a Nominal Account ?
- (1) Stock A/c
 - (2) Creditor's A/c
 - (3) Drawings A/c
 - (4) Commission A/c
9. The final step of accounting cycle is
- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Journal | (2) Ledger |
| (3) Trial Balance | (4) Balance Sheet |
10. Which of the following transactions leads to contra entry in the Cash Book ?
- (1) Paid rent ₹ 5,000
 - (2) Interest received from Ram ₹ 700
 - (3) Goods purchased for Cash ₹ 9,000
 - (4) Withdrawal of ₹ 20,000 from Bank
11. Narration must be written
- (1) for every transaction entered in the journal
 - (2) when goods are purchased for cash
 - (3) when goods are sold for cash
 - (4) at the time of preparing a Balance Sheet
12. Expenses incurred during the regular course of business are called
- (1) Capital expenditure
 - (2) Revenue expenditure
 - (3) Deferred capital expenditure
 - (4) Deferred revenue expenditure

7. भुगतान किए गए वेतन का लेखा समीकरण (accounting equation) पर क्या प्रभाव होगा ?
- (1) रोकड़ में कमी होगी
 - (2) रोकड़ में वृद्धि होगी
 - (3) पूँजी में कमी होगी तथा रोकड़ में भी कमी होगी
 - (4) केवल पूँजी में कमी होगी
8. निम्नलिखित में से कौन-सा खाता एक आय-व्यय खाता (Nominal Account) है ?
- (1) स्टॉक खाता
 - (2) लेनदार का खाता
 - (3) आहरण खाता
 - (4) कमीशन खाता
9. लेखा चक्र का अंतिम सोपान (step) है
- (1) जर्नल
 - (2) खाता-बही (लेजर)
 - (3) तलपट (Trial Balance)
 - (4) तुलन पत्र (Balance Sheet)
10. निम्नलिखित में से किस लेनदेन के लिए रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि (contra entry) करनी होगी ?
- (1) ₹ 5,000 किराया दिया
 - (2) राम से ₹ 700 ब्याज के प्राप्त हुए
 - (3) ₹ 9,000 का नक़द माल खरीदा
 - (4) बैंक से ₹ 20,000 आहरित किए
11. व्याख्या (Narration) लिखना आवश्यक है
- (1) जर्नल में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लेनदेन के लिए
 - (2) जब माल का नक़द क्रय किया गया हो
 - (3) जब माल का नक़द विक्रय किया गया हो
 - (4) तुलन पत्र (बैलेंस शीट) बनाते समय
12. ऐसे समस्त व्यय जो व्यापार के नित्य प्रति प्रबंध व संचालन के लिए किए जाते हैं, कहलाते हैं
- (1) पूँजीगत व्यय
 - (2) आयगत व्यय
 - (3) आस्थगित पूँजीगत व्यय
 - (4) आस्थगित आयगत व्यय

13. Amount realized on account of goods sold is called
- (1) Gain
 - (2) Revenue
 - (3) Loss
 - (4) Profit
14. Posting into accounts is done in the
- (1) Journal
 - (2) Trial Balance
 - (3) Ledger
 - (4) Balance Sheet
15. A copy of customer's account given by bank is called
- (1) Cheque Book
 - (2) Cash Book
 - (3) Pass Book
 - (4) Purchases Book
16. A system of advancing a fixed amount to the cashier periodically is called
- (1) Single Entry System
 - (2) Imprest System
 - (3) Double Entry System
 - (4) Money Lending System
17. Bank overdraft is a
- (1) Current Liability
 - (2) Current Asset
 - (3) Fixed Asset
 - (4) Fixed Liability
18. Cost of Goods Sold is
- (1) Opening Stock + Gross Profit
 - (2) Opening Stock – Gross Profit
 - (3) Closing Stock + Gross Profit
 - (4) Opening Stock + Purchases + Direct Expenses – Closing Stock

13. बेचे गए माल की प्राप्त हुई राशि कहलाती है
- (1) अभिलाभ (Gain)
 - (2) आय (Revenue)
 - (3) हानि
 - (4) लाभ
14. खातों में की जाने वाली खतौनी होती है
- (1) जर्नल में
 - (2) तलपट (Trial Balance) में
 - (3) खाता-बही में
 - (4) तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में
15. बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि कहलाती है
- (1) चैक बुक
 - (2) रोकड़ बही
 - (3) पास बुक
 - (4) क्रय बही
16. रोकड़िए (Cashier) को आवधिक रूप से दी जाने वाली नियत राशि की अग्रिम प्रणाली कहलाती है
- (1) एकल प्रविष्टि प्रणाली
 - (2) अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) पद्धति
 - (3) दोहरी प्रविष्टि प्रणाली
 - (4) धन उधार देने की प्रणाली
17. बैंक ओवरड्राफ्ट है एक
- (1) चालू देयता
 - (2) चालू परिसंपत्ति
 - (3) स्थायी परिसंपत्ति
 - (4) स्थायी देयता
18. बेचे गए माल की लागत है
- (1) प्रारम्भिक स्टॉक + सकल लाभ
 - (2) प्रारम्भिक स्टॉक – सकल लाभ
 - (3) अंतिम स्टॉक + सकल लाभ
 - (4) प्रारम्भिक स्टॉक + क्रय + प्रत्यक्ष व्यय – अंतिम स्टॉक

19. Depreciation on fixed assets is a

- (1) Capital expenditure
- (2) Revenue expenditure
- (3) Revenue loss
- (4) Deferred revenue expenditure

20. The main objective of preparing a Balance Sheet is

- (1) To know about financial position of the business
- (2) To know about Gross Profit of the business
- (3) To know about Net Profit of the business
- (4) To know about Total Capital of the business

21. Sales Return Journal is also called

- (1) Returns Inwards Journal
- (2) Invoice Book
- (3) Returns Outwards Journal
- (4) Cash Book

22. Interest on Capital is shown on the

- (1) Debit side of Manufacturing A/c
- (2) Debit side of Trading A/c
- (3) Debit side of Profit and Loss A/c
- (4) Debit side of Profit and Loss Appropriation A/c

23. A cheque payable at the counter of the bank without identification is called

- (1) Order Cheque
- (2) Crossed Cheque
- (3) Specific Cheque
- (4) Bearer Cheque

24. Sale of typewriter used in office should be credited to

- (1) Cash A/c
- (2) Bank A/c
- (3) Typewriter A/c
- (4) Sales A/c

19. स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास है एक

- (1) पूँजीगत व्यय
- (2) आयगत व्यय
- (3) आयगत हानि
- (4) आस्थगित आयगत व्यय

20. बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य है

- (1) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना
- (2) व्यवसाय के सकल लाभ की जानकारी प्राप्त करना
- (3) व्यवसाय के निवल लाभ की जानकारी प्राप्त करना
- (4) व्यवसाय की कुल पूँजी की जानकारी प्राप्त करना

21. विक्रय वापसी जर्नल को यह भी कहा जा सकता है

- (1) आगत वापसी जर्नल
- (2) बीजक बही
- (3) निर्गत वापसी जर्नल
- (4) रोकड़ बही

22. पूँजी पर ब्याज को दिखाया जाता है

- (1) विनिर्माण खाते के डेबिट पक्ष में
- (2) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में
- (3) लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में
- (4) लाभ-हानि विनियोजन खाते के डेबिट पक्ष में

23. बिना शिनाख्त के बैंक के काउंटर पर देय चैक कहलाता है

- (1) आदेश (Order) चैक
- (2) रेखित चैक
- (3) विशिष्ट चैक
- (4) धारक (Bearer) चैक

24. कार्यालय में उपयोग होने वाले टाइपराइटर के विक्रय की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए

- (1) रोकड़ खाते को
- (2) बैंक खाते को
- (3) टाइपराइटर खाते को
- (4) विक्रय खाते को

25. Rent paid to landlord ₹ 500 was credited to Rent A/c with ₹ 5,000. In the rectifying entry, Rent A/c will be debited with
- (1) ₹ 5,500 (2) ₹ 5,000
(3) ₹ 4,500 (4) ₹ 500
26. Sales is equal to
- (1) Cost of goods sold + Gross profit
(2) Cost of goods sold – Gross profit
(3) Closing stock + Gross profit
(4) Closing stock ÷ Gross profit
27. Discount received account has
- (1) A debit balance
(2) A credit balance
(3) No balance
(4) All of the above
28. Gross Profit is equal to
- (1) Opening stock + Purchases
(2) Net sales – Cost of goods sold
(3) Opening stock – Purchases
(4) Net sales + Cost of goods sold
29. Trade discount is given to customers on
- (1) Cash purchases (2) Credit purchases
(3) Credit sales (4) Large scale purchases
30. The item given as adjustments will be shown in final accounts at
- (1) One place only (2) Two places only
(3) Three places only (4) Four places only
31. Donation received for a 'specific purpose' is a
- (1) Revenue receipt (2) Capital expenditure
(3) Revenue expenditure (4) Capital receipt

25. मकान मालिक को भुगतान किए गए किराए की ₹ 500 की राशि किराए खाते को ₹ 5,000 से क्रेडिट की गई। इस गलती के परिशोधन के लिए किराए खाते को डेबिट किया जाना चाहिए
- (1) ₹ 5,500 से (2) ₹ 5,000 से
(3) ₹ 4,500 से (4) ₹ 500 से
26. विक्रय बराबर है
- (1) बेचे गए माल की लागत + सकल लाभ
(2) बेचे गए माल की लागत - सकल लाभ
(3) अंतिम स्टॉक + सकल लाभ
(4) अंतिम स्टॉक ÷ सकल लाभ
27. प्राप्त हुई कटौती खाते का शेष होता है
- (1) डेबिट शेष
(2) क्रेडिट शेष
(3) कोई शेष नहीं
(4) उपर्युक्त सभी
28. सकल लाभ बराबर है
- (1) आरम्भिक स्टॉक + क्रय
(2) निवल विक्रय - बेचे गए माल की लागत
(3) आरम्भिक स्टॉक - क्रय
(4) निवल विक्रय + बेचे गए माल की लागत
29. ग्राहकों को व्यापारिक छूट दी जाती है
- (1) नकद क्रय पर (2) उधार क्रय पर
(3) उधार विक्रय पर (4) बड़े पैमाने के क्रय पर
30. समायोजनों में दी गई मद अंतिम लेखों में दिखाई जाएगी
- (1) केवल एक जगह (स्थान) पर (2) केवल दो जगहों पर
(3) केवल तीन जगहों पर (4) केवल चार जगहों पर
31. एक 'विशिष्ट उद्देश्य' के लिए प्राप्त हुई दान (donation) की राशि है एक
- (1) आयगत प्राप्ति (2) पूँजीगत व्यय
(3) आयगत व्यय (4) पूँजीगत प्राप्ति

32. Which of the following statements is correct ?
- (1) Loan account is a Personal A/c.
 - (2) Drawings A/c is a Real A/c.
 - (3) Capital A/c is a Nominal A/c.
 - (4) Patents is a tangible asset.
33. A business has liabilities of ₹ 5,00,000 and owner's equity ₹ 2,00,000. Its assets would be
- (1) ₹ 3,00,000
 - (2) ₹ 7,00,000
 - (3) ₹ 5,00,000
 - (4) ₹ 2,00,000
34. Selling and distribution expenses are transferred to
- (1) Manufacturing A/c
 - (2) Capital A/c
 - (3) Profit and Loss Appropriation A/c
 - (4) Profit and Loss A/c
35. Which type of discount is **not** shown in the books of account ?
- (1) Cash discount
 - (2) Rebate
 - (3) Trade discount
 - (4) Discount on bills receivables
36. Amount brought in by the proprietor into the business should be credited to
- (1) Cash A/c
 - (2) Drawings A/c
 - (3) Capital A/c
 - (4) Bank A/c
37. Which branch of accounting is concerned with measurement and control of costs ?
- (1) Management Accounting
 - (2) Corporate Accounting
 - (3) Financial Accounting
 - (4) Cost Accounting
38. Goodwill is a/an
- (1) Wasting asset
 - (2) Intangible asset
 - (3) Tangible asset
 - (4) Fictitious asset

32. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
- (1) ऋण खाता एक व्यक्तिगत खाता है ।
 - (2) आहरण खाता एक वास्तविक खाता है ।
 - (3) पूँजी खाता एक आय-व्यय खाता है ।
 - (4) पेटेंट एक मूर्त परिसंपत्ति है ।
33. एक व्यवसाय की देयताएँ ₹ 5,00,000 हैं तथा स्वामी की ईक्विटी ₹ 2,00,000 है । इसकी परिसंपत्तियों की राशि होगी
- (1) ₹ 3,00,000
 - (2) ₹ 7,00,000
 - (3) ₹ 5,00,000
 - (4) ₹ 2,00,000
34. विक्रय एवं वितरण व्यय हस्तांतरित किए जाते हैं
- (1) विनिर्माण खाते में
 - (2) पूँजी खाते में
 - (3) लाभ-हानि विनियोजन खाते में
 - (4) लाभ-हानि खाते में
35. निम्नलिखित में से किस कटौती को लेखा बहियों में नहीं दिखाया जाता ?
- (1) रोकड़ कटौती को
 - (2) घटौती (Rebate) को
 - (3) व्यापारिक कटौती को
 - (4) प्राप्य बिलों पर दी जाने वाली कटौती को
36. मालिक द्वारा व्यवसाय में लाई गई राशि को क्रेडिट किया जाना चाहिए
- (1) रोकड़ खाते में
 - (2) आहरण खाते में
 - (3) पूँजी खाते में
 - (4) बैंक खाते में
37. लेखांकन की कौन-सी शाखा लागतों की माप एवं उनके नियंत्रण से संबंधित है ?
- (1) प्रबंध लेखाकरण
 - (2) कंपनी लेखाकरण
 - (3) वित्तीय लेखाकरण
 - (4) लागत लेखाकरण
38. ख्याति (Goodwill) है एक
- (1) क्षयी परिसंपत्ति
 - (2) अमूर्त परिसंपत्ति
 - (3) मूर्त परिसंपत्ति
 - (4) नाममात्र की (कल्पित) परिसंपत्ति

39. Ledger Folio is the column included in

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) Journal | (2) Sales Book |
| (3) Cash Book | (4) All of the above |

40. Which of the following is called a book of prime entry ?

- (1) Journal
- (2) Purchases Book
- (3) Sales Book
- (4) Purchases Returns Book

41. Which of the following accounts will increase by credit entry ?

- | | |
|------------------|-----------------------|
| (1) Building A/c | (2) Purchases A/c |
| (3) Sales A/c | (4) Sales Returns A/c |

42. When an asset is recorded at its price actually paid, it is related to

- (1) Going concern concept
- (2) Dual aspect concept
- (3) Matching concept
- (4) Cost concept

43. Single Entry System of book-keeping is a system of

- (1) Incomplete records
- (2) Reliable records
- (3) Providing true financial position
- (4) Helping in locating errors

44. Depreciation primarily arises from

- (1) Physical wear and tear
- (2) Fall in the value of money
- (3) Fall in prices
- (4) Fall in market value of an asset

39. लेजर पत्रा (L.F.) एक कॉलम है जो दिया (शामिल) होता है
- (1) जर्नल में
 - (2) विक्रय बही में
 - (3) रोकड़ बही में
 - (4) उपर्युक्त सभी में
40. निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक प्रविष्टि की बही (book of prime entry) कहा जाता है ?
- (1) रोज़नामचा (Journal)
 - (2) क्रय बही
 - (3) विक्रय बही
 - (4) क्रय वापसी बही
41. निम्नलिखित में से कौन-से खाते में क्रेडिट प्रविष्टि से वृद्धि होगी ?
- (1) भवन खाता
 - (2) क्रय खाता
 - (3) विक्रय खाता
 - (4) विक्रय वापसी खाता
42. जब एक परिसंपत्ति को उसके लिए दी गई वास्तविक कीमत पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका आधार कहलाता है
- (1) चालू व्यवसाय की संकल्पना
 - (2) द्विपक्षीय संकल्पना
 - (3) मिलान की संकल्पना
 - (4) लागत की संकल्पना
43. बही खाते की इकहरी लेखा प्रणाली एक प्रणाली है
- (1) अपूर्ण रिकॉर्डों की
 - (2) विश्वसनीय रिकॉर्डों की
 - (3) सही वित्तीय स्थिति प्रदान करने की
 - (4) त्रुटियाँ ज्ञात करने में सहायता प्रदान करने की
44. मूल्यहास मुख्यतः उत्पन्न होता है
- (1) भौतिक टूट-फूट से
 - (2) मुद्रा के मूल्य में कमी होने से
 - (3) कीमतों में कमी होने से
 - (4) परिसंपत्ति के बाज़ार मूल्य में कमी होने से

45. Petty Cash Book is used for recording
- (1) Purchases of goods
 - (2) Purchases of current assets
 - (3) Small expenses like postage, stationery, etc.
 - (4) Payment of long-term liabilities
46. A manager gets 10% commission on Net Profits after charging such commission. Before charging the commission the profits were ₹ 55,000. The commission will be
- (1) ₹ 5,000
 - (2) ₹ 5,500
 - (3) ₹ 5,575
 - (4) ₹ 6,000
47. Amount realized from sale of scrap is adjusted in
- (1) Cost of goods sold
 - (2) Cost of goods produced
 - (3) Trading A/c
 - (4) Profit and Loss A/c
48. Current liabilities are payable
- (1) After 2 years
 - (2) After 1 year
 - (3) After 5 years
 - (4) Within 1 year
49. If the profit is $\frac{1}{4}$ of sale, then it is
- (1) $\frac{1}{2}$ of the cost price
 - (2) $\frac{1}{5}$ of the cost price
 - (3) $\frac{1}{3}$ of the cost price
 - (4) $\frac{1}{4}$ of the cost price
50. Cost of sales is ₹ 90,000, Net sales ₹ 2,00,000 and Closing stock ₹ 20,000. The Gross Profit would be
- (1) ₹ 2,90,000
 - (2) ₹ 1,80,000
 - (3) ₹ 1,10,000
 - (4) ₹ 1,30,000

45. खुदरा रोकड़ बही उपयोग की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए
- (1) माल के क्रय को
 - (2) चालू परिसंपत्तियों के क्रय को
 - (3) डाक-व्यय, स्टेशनरी, आदि जैसे छोटे व्ययों को
 - (4) दीर्घकालीन देयताओं के भुगतान को
46. एक प्रबंधक को ऐसी कमीशन चार्ज करने के बाद के निवल लाभ पर 10% कमीशन मिलता है। कमीशन चार्ज किए जाने से पूर्व का लाभ ₹ 55,000 था। कमीशन की राशि होगी
- (1) ₹ 5,000
 - (2) ₹ 5,500
 - (3) ₹ 5,575
 - (4) ₹ 6,000
47. रद्दी (Scrap) के विक्रय पर प्राप्त राशि समायोजित की जाती है
- (1) बेचे गए माल की लागत में
 - (2) उत्पादित माल की लागत में
 - (3) व्यापार खाते में
 - (4) लाभ-हानि खाते में
48. चालू देयताएँ देय होती हैं
- (1) 2 वर्ष के बाद
 - (2) 1 वर्ष के बाद
 - (3) 5 वर्ष के बाद
 - (4) 1 वर्ष के भीतर
49. यदि लाभ विक्रय का $\frac{1}{4}$ है, तो यह होगा
- (1) लागत कीमत का $\frac{1}{2}$
 - (2) लागत कीमत का $\frac{1}{5}$
 - (3) लागत कीमत का $\frac{1}{3}$
 - (4) लागत कीमत का $\frac{1}{4}$
50. विक्रय की लागत ₹ 90,000 है, निवल विक्रय ₹ 2,00,000 है तथा अंतिम स्टॉक की राशि ₹ 20,000 है। सकल लाभ (G.P.) की राशि होगी
- (1) ₹ 2,90,000
 - (2) ₹ 1,80,000
 - (3) ₹ 1,10,000
 - (4) ₹ 1,30,000